

SSC CGL & CPO 2018



REASONING

DICE



RULES:

- ✓ Two opposite faces cannot be adjacent to one another.
- ✓ दो विपरीत फ़लक एक दूसरे के पड़ोस में नहीं हो सकते ।

RULES:

- ✓ If two different positions of a dice are shown and one of the two common faces is in the same position then of the remaining faces will be opposite to each other.
- ✓ यदि पाँसे की दो भिन्न स्थिति दिखायी जाएँ और उसमें दो समान फ़लक में कोई एक ही स्थान पर हो तो बाकी बचे हुए फ़लक एक दूसरे के विपरीत होंगे ।


RULES:

- ✓ If in two different positions of a dice, the position of common faces be the same, then each of the remaining faces will be in the same position.
- ✓ यदि पाँसे की दो भिन्न स्थिति दिखायी जाए, समान फ़लक की स्थिति भी समान हो, तो बाकी बचे हुए फ़लक एक दूसरे के विपरीत होंगे ।

RULES:

- ✓ If in two different positions of a dice, the position of common face be not the same, then opposite face of the common face will be that which is not shown on any face.
- ✓ यदि पाँसे की दो भिन्न स्थिति दिखायीं जाए, समान फ़लक की स्थिति समान ना हो, तो उसका विपरीत फ़लक वही होगा जो किसी फ़लक पर दिखाई न दे ।

DICE




What could be the opposite of 5 dots?
5 बिंदु के विपरीत क्या होगा?

- (A) 3
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 4

0:30

DICE




What could be the opposite of 4?
4 के विपरीत क्या होगा?

- (A) 3
- (B) 5
- (C) 6
- (D) $2/3$

0:30

DICE




What could be the opposite of 5?
5 के विपरीत क्या होगा?

- (A) 2/6
- (B) 2
- (C) 6
- (D) 4

0:30

DICE




What could be the opposite of 1?

1 के विपरीत क्या होगा?

- (A) 3
- (B) 5
- (C) 2
- (D) 6

0:30

DICE




What could be the opposite of 4?

4 के विपरीत क्या होगा?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 5
- (D) 6

0:30

DICE




What could be the opposite of 2 dots?

2 बिंदु के विपरीत क्या होगा?

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 6

0:30

DICE




What could be the opposite of 2 dots?

2 बिंदु के विपरीत क्या होगा?

- (A) 6
- (B) 5
- (C) 4
- (D) 1

0:30

DICE




What could be the opposite of *?

* के विपरीत क्या होगा?

- (A) @
- (B) \$
- (C) 8
- (D) +

0:30

DICE




What could be the opposite of 2 dots?

2 बिंदु के विपरीत क्या होगा?

- (A) 1
- (B) 5
- (C) 4
- (D) 6

0:30

DICE



What could be the opposite of 6?

6 के विपरीत क्या होगा?

- (A) 4
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

0:30

LIKE

COMMENT

SHARE

SUBSCRIBE

**A COMPLETE WEBSITE
TO PREPARE FOR
COMPETITIVE EXAMS**